

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 20.01.2021

थाना कलान पुलिस ने अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गैंग का किया खुलासा,
11 चोरी की मोटर साईकिल सहित 02 अदद अवैध तमंचा बरामद।
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहापुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री वृहम्मपाल सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन व थानाध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में कलान पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

आज दिनांक 20.1.2021 को थानाध्यक्ष कलान द्वारा मिर्जापुर- कलान बार्डर पर गश्त/चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर बाईक चोर 1. अनुज उर्फ सनोज उर्फ यदुवीर पुत्र रामेश्वर सिंह यादव 2. मनोज कुमार पुत्र कमलेश्वर यादव को रात्रि 3.30 बजे चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 02 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशादेही पर 10 अदद चोरी की मोटर साईकिल ग्राम लक्ष्मनपुर से ग्राम अब्दुल्लानगर की तरफ जाने वाली सोत नदी के किनारे जंगल झाडी से बरामद की गयी । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त अनुज उर्फ सनोज उर्फ यदुवीर उपरोक्त थाना कलान के मु0अ0सं0 545/20 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 का वाछित एवं भागा हुआ अपराधी है, इसका साथी भंवरपाल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम गुन्दौरा दाउदपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर दिनांक 17.12.2020 को उक्त अभियोग में जिला कारागार शाहजहाँपुर में निरुद्ध है । अभियुक्तगण थाना अल्हागंज के मु0अ0सं0 318/20 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित मोटरसाईकिल की चोरी करना बताया है ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. अनुज उर्फ सनोज उर्फ यदुवीर पुत्र रामेश्वर सिंह यादव निवासी ग्राम दौतलपुर थाना पाली जिला हरदोई
2. मनोज कुमार पुत्र कमलेश्वर यादव निवासी ग्राम थरिया थाना पाली जिला हरदोई

बरामदगी:-

1. दो अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद कारतूस जिन्दा ।
2. कुल 11 अदद मोटर साईकिल
4. कुल 1700 /-रूपये नगद

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 545/20 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कलान
2. मु0अ0सं0 17/21 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कलान
3. मु0अ0सं0 18/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कलान
4. मु0अ0सं0 19/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कलान
5. मु0अ0सं0 318/20 धारा 379 भा0द0वि0 थाना अल्हागंज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. थानाध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह | 2. उ0नि0 पंकज चौधरी | 3. उ0नि0 मो0 आरिफ |
| 4. सर्विलांस टीम | 5. हे0का0 204 अमित दुबे | 6. हे0का0 150 सुबोध कुमार |
| 7. हे0का0 299 आरजू खाँ | 8. का0 1234 अनुज कुमार | |
| 9. का0 2247 सचिन कुमार | 10. का0 2035 बोबी | 11. कां0 2042 आकाश कुमार |
| 12. का0 2054 विक्रान्त मलिक | | |